



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, मार्च 19—मार्च 25, 2017, शनिवार/फाल्गुन 28, 1938—चैत्र 4, 1939  
No. 8] NEW DELHI, MARCH 19—MARCH 25, 2017, SATURDAY/PHALGUNA 28,, 1938—CHAITRA 4, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2017

का.नि.आ. 16.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, परिवार नियोजन संगठन (सहायक) भर्ती नियम, 1969 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन परिवार कल्याण संगठन में सहायक (परिवार कल्याण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, परिवार कल्याण संगठन, सहायक (परिवार कल्याण), समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ-(2) से स्तंभ-(4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उस पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ-(5) से स्तंभ-(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिये आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक (परिवार कल्याण)	134* (2017)  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', गैर-तकनीकी, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1 (रु. 18,000- 56,900)	लागू नहीं होता	महिला उम्मीदवार जिनकी उम्र 18 से 25 वर्ष हो।  (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारी/कर्मचारियों के लिये ऊपरी आयु-सीमा में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)  <b>टिप्पण 1.</b> - आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिये विहित की गई है।)  <b>टिप्पण 2.</b> - रोजगार कार्यालयों के द्वारा भर्ती किये जाने की स्थिति में, रोजगार कार्यालयों के द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख ही आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख होगी।

सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<b>आवश्यक:</b> किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास महिला उम्मीदवार <b>वांछनीय:</b> किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में दाई के रूप में तीन साल के कार्यों का अनुभव	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जायेगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. चिकित्सा अधिकारी (तीनों सेवा अस्पतालों और आयुध कारखानों से कर्नल और उसके समतुल्य स्तर के अधिकारी) – अध्यक्ष; 2. परिवार कल्याण केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी – सदस्य; 3. ले. कर्नल/मेजर या समतुल्य अधिकारी – सदस्य.	लागू नहीं होता

[सं. 35273/आर.आर.(महिला सहायक)/डीजीएफएमएस/डीजी-3डी/136/17/डी(भर्ती)]

विश्वजीत गुहा, अवर सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE**

New Delhi, the 17th March, 2017

**S.R.O. 16.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Family Planning Organization, (Attendants) Recruitment Rules, 1969, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Attendant (Family Welfare) in the Family Welfare Organization under Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and Commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Family Welfare Organization Attendant (Family Welfare) Group 'C' post Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the level in the pay matrix.** - The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached to the said post shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid schedule.

4. **Disqualification.** – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Attendant (Family Welfare)	134* (2017)  * Subject to variation dependant on workload	General Central Service, Group 'C', Non Technical, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1  (Rs. 18,000-56,900)	Not applicable	<p>Female candidate(s) between the age of 18 and 25 years. (Relaxation in the upper age limit for Government Servant(s) is upto the age of 40 years in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government from time to time )</p> <p><b>Note 1.</b> - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, the Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andman and Nicobar Island or Lakshadweep).</p> <p><b>Note 2.</b> - In the case of recruitment is made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Essential:</b> Female candidate(s) with 10 <sup>th</sup> pass from a recognised Board or Institute.  <b>Desirable:</b> Three years' experience as a Dai in a Government or recognised hospital.	Not applicable	Two years	By direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-  (1) Medical Officer (Colonel and its equivalent level Officer from the three Services or Director General Ordnance Factories) - Chairman;  (2) Medical Officer-in-charge of Family Welfare Centre - Member;  (3) Officer (Lt Colonel/Major or equivalent) - Member.	Not applicable.

[No. 35273/RR(Female Attendant)/DGAFMS/DG-3D/136/17/D(Appts.)]

BISWAJIT GUHA, Under Secy.